

सं. 28 : एस जी एल लेनदेन पर आधारित भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर परिशोधनगत आय*

(वार्षिक प्रतिशत)

क्र. सं.	ऋण का नाम	2005-06	2006-07	2007-08	2007		2008			
					नव.	दिसं.	सितं.	अक्तू.	नव.	दिसं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अ)	5 वर्ष से कम में समाप्त									
1	6.00% 2008	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2	9.50% 2008	6.59	7.14	7.32	..	..	..	..	..	..
3	10.80% 2008	6.56	6.65	7.43	..	..	..	..	..	..
4	11.40% 2008	6.40	7.22	7.26	7.29	..	..	..	..	..
5	11.50% 2008	6.38	7.08	7.81	8.22	7.79	..	..	..	..
6	12.00% 2008	6.41	7.04	7.60	7.47	7.74	..	..	..	..
7	12.10% 2008	6.62	7.54	7.86	..	..	..	..	..	..
8	12.15% 2008	6.32	7.75	..	..	..	..	..	..	..
9	12.22% 2008	6.35	6.86	..	..	..	..	..	..	..
10	12.25% 2008	6.55	7.07	8.15	7.70	7.54	..	..	..	..
11	5.48% 2009	6.87	6.88	7.63	7.76	7.76	8.71	7.89	7.03	5.85
12	6.65% 2009	6.54	7.51	7.66	7.76	7.75	8.89	7.55	6.83	5.70
13	6.99% 2009	..	..	..	..	..	..	..	..	..
14	7.00% 2009	6.73	7.50	8.09	..	8.13	8.82	8.36	..	..
15	11.50% 2009	6.71	7.52	7.95	..	..	9.98	..	..	6.15
16	11.99% 2009	6.59	7.25	7.65	..	7.75	8.68	8.16	7.08	5.57
17	5.87% 2010	6.57	..	7.63	7.76	7.77	8.69	7.82	7.04	5.75
18	6.00% 2010	..	..	..	..	..	..	..	..	..
19	6.20% 2010	..	..	..	..	..	..	..	..	..
20	7.50% 2010	6.89	7.77	7.35	..	..	8.85	9.25	8.12	6.78
21	7.55% 2010	6.69	7.42	7.69	7.71	7.79	8.41	7.37	7.10	6.20
22	8.75% 2010	6.95	7.98	..	..	..	8.62	..	..	..
23	11.30% 2010	6.85	7.39	7.70	7.72	7.80	8.90	7.77	7.37	6.04
24	11.50% 2010	6.85	7.43	7.70	..	..	..	7.79	7.55	6.26
25	12.25% 2010	6.86	7.45	7.55	..	..	8.91	8.00	7.30	6.28
26	12.29% 2010	6.85	7.50	7.78	7.84	..	8.84	..	..	..
27	5.03% 2011	..	..	..	..	..	..	..	..	..
28	6.57% 2011	..	..	7.37	..	..	8.44	7.70	7.16	6.01
29	8.00% 2011	7.10	7.86	7.93	8.07	7.80	..	..	7.51	5.53
30	9.39% 2011	6.86	7.52	7.78	7.75	7.80	8.64	7.93	7.30	6.28
31	10.95% 2011	6.96	7.33	7.94	..	..	8.62	..	..	6.41
32	11.50% 2011	6.98	7.43	7.82	..	6.87	8.75	7.80	7.35	5.67
33	12.00% 2011	7.03	7.97	7.95	..	..	..	7.54	7.83	6.93
34	12.32% 2011	6.89	7.59	7.85	..	..	..	..	..	..
35	7.40% 2012	6.95	7.55	7.83	8.20	7.81	8.96	8.06	7.52	6.34
36	9.40% 2012	6.96	7.60	7.87	..	..	..	8.15	..	6.78
37	10.25% 2012	7.06	7.88	8.08	8.05	8.77	8.69	7.78	7.21	..
38	11.03% 2012	7.02	7.81	8.10	..	8.28	..	..	8.05	6.75
39	6.72% 2012	6.51	6.93	7.87	..	..	..	..	7.75	..
40	6.85% 2012	6.86	7.58	7.80	7.72	7.83	..	..	7.75	7.01
41	7.27% 2013	6.98	7.58	7.66	7.83	7.78	8.53	7.93	7.35	6.21
42	9.00% 2013	7.06	7.86	8.25	..	9.48	8.65	..	7.84	6.93
43	9.8% 2013	7.11	7.85	8.11	..	..	..	7.88	..	6.80
44	12.40% 2013	7.17	7.93	7.99	..	7.98	8.66	7.97	7.74	6.56
45	6.72% 2014	7.05	8.05	7.89	7.89	..	..	..	..	..
46	7.37% 2014	7.04	7.74	7.86	7.86	7.80	8.55	7.92	7.50	6.34
47	7.56% 2014	..	..	..	..	..	..	7.54	7.33	6.18
48	10.00% 2014	7.22	7.71	8.09	..	9.57	..	..	9.62	6.86
49	10.50% 2014	7.28	7.83	7.85	..	..	8.20	..	9.57	6.50
50	11.83% 2014	7.17	7.84	7.94	8.00	7.87	8.45	7.92	7.73	6.71
51	11.50% 2015	7.27	7.91	8.12	..	8.56	8.84	7.92	7.58	6.56
52	7.38% 2015	7.06	7.70	7.95	7.87	7.81	8.38	7.84	7.53	6.37
53	9.85% 2015	7.24	7.76	8.01	..	..	9.00	..	..	6.85

सं. 28 : एस जी एल लेनदेन पर आधारित भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर परिशोधनगत आय* (समाप्त)

(वार्षिक प्रतिशत)

क्र. सं.	ऋण का नाम	2005-06	2006-07	2007-08	2007		2008			
					नव.	दिसं.	सितं.	अक्तू.	नव.	दिसं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	10.47% 2015	7.22	7.59	8.06	..	..	8.76	8.20	7.72	6.79
55	10.79% 2015	7.22	7.65	8.02	..	..	8.51	8.38	..	..
56	11.43% 2015	7.19	7.92	8.06	7.88	7.87	..	..	8.16	5.95
57	5.59% 2016	7.17	7.66	8.18	..	..	..	..	..	6.13
58	7.59% 2016	..	7.79	7.91	7.91	7.84	8.42	7.94	7.58	6.42
59	10.71% 2016	7.26	7.95	7.89	7.86	7.95	..	..	..	..
60	12.30% 2016	7.26	8.21	8.41	..	8.42	8.68	7.95	8.24	7.16
61	7.46% 2017	7.25	7.81	7.88	8.01	7.99	8.71	7.86	7.45	6.53
62	7.49% 2017	7.25	7.82	7.87	7.90	7.88	8.58	7.93	7.66	6.52
63	7.99% 2017	..	..	7.85	7.89	7.87	8.36	8.00	7.64	6.55
64	8.07% 2017	7.22	7.80	7.93	7.94	7.89	8.50	8.00	7.70	6.53
आ) 10 और 15 वर्ष के बीच										
65	5.69% 2018	7.29	7.95	7.99	8.05	7.97	8.58	7.98	..	6.49
66	6.25% 2018	7.23	7.91	8.03	8.03	8.04	8.54	7.89	7.70	6.57
67	8.24% 2018	..	..	..	..	..	8.41	7.84	7.47	6.16
68	10.45% 2018	7.34	8.05	8.19	8.00	8.14	..	7.90	..	6.25
69	12.60% 2018	7.61	7.91	..	..	..	8.45	..	8.12	7.16
70	5.64% 2019	7.27	8.12	8.07	8.10	8.08	8.76	8.09	7.81	6.67
71	6.05% 2019	7.27	7.91	8.11	8.17	7.99	8.99	7.91	7.74	6.59
72	10.03% 2019	7.38	7.83	8.22	..	..	..	8.18	..	6.46
73	6.35% 2020	7.33	7.95	8.12	8.25	8.06	..	..	..	6.40
74	10.70% 2020	7.46	8.00	8.48	..	..	..	..	9.52	7.28
75	11.60% 2020	7.36	7.73	8.00	..	8.03	8.66	..	8.07	..
76	7.94% 2021	..	8.07	8.11	8.13	8.26	8.98	8.21	7.67	6.32
77	10.25% 2021	7.46	8.07	8.11	8.16	8.15	9.36	..	8.24	6.61
78	5.87% 2022	7.51	8.02	6.87	..	6.24	..	8.23	8.18	6.35
79	8.08% 2022	..	..	7.90	..	..	..	..	..	..
80	8.13% 2022	..	..	7.90	..	..	..	..	..	..
81	8.20% 2022	..	..	7.95	8.17	8.05	8.70	7.98	7.70	6.76
82	8.35% 2022	7.41	8.02	7.99	8.15	8.06	9.10	8.04	7.84	6.73
इ) 15 वर्ष से अधिक										
83	6.17% 2023	7.38	8.01	8.18	8.20	8.10	9.03	8.13	7.86	6.71
84	6.30% 2023	7.36	8.01	8.08	8.23	8.07	..	..	8.03	6.72
85	10.18% 2026	7.49	7.86	8.26	..	8.31	..	..	8.33	8.28
86	8.24% 2027	..	8.19	8.06	..	..	8.93	8.40	7.98	7.09
87	8.26% 2027	..	..	8.21	..	..	..	8.08	8.26	7.64
88	6.01% 2028	7.38	8.02	8.28	8.40	8.28	9.08	8.64	7.97	7.11
89	6.13% 2028	7.42	8.02	8.31	8.26	8.27	9.04	8.67	8.15	6.96
90	7.95% 2032	7.57	8.07	8.19	8.34	8.24	8.97	8.40	8.05	6.98
91	8.28% 2032	..	..	..	..	..	8.98	8.58	8.05	7.04
92	8.32% 2032	..	..	7.94	..	..	..	..	..	..
93	8.33% 2032	..	..	..	..	..	82.61	..	..	..
94	7.5% 2034	7.54	8.19	8.38	8.35	8.60	8.82	8.57	8.32	7.00
95	7.40% 2035	7.55	8.14	8.27	8.44	8.29	8.97	..	8.15	7.09
96	8.33% 2036	..	8.13	8.28	8.34	8.24	8.97	8.24	7.98	7.02

* : मासिक परिशोधनगत प्राप्ति की गणना अप्रैल 2000 से प्रत्येक कारोबारगत प्रतिभूति में लेनदेन से प्राप्त दैनिक भारत औसत आय के मध्यमान के रूप में की गई है। भारांक उक्त प्रतिभूति में लेनदेन के कुल मूल्य में उक्त प्रतिभूति के लेनदेन के अंश के रूप में गिने जाते हैं। अप्रैल 2000 से पहले इसमें परिशोधनगत प्राप्ति को भारांक नहीं दिया जाता था और प्रत्येक प्रतिभूति के दैनिक मूल्य के औसत के रूप में उसकी गणना की जाती थी।

@ : क्रय-विक्रय विकल्प के साथ जारी भारत सरकार की प्रतिभूतियां निर्गम की तारीख से 5 वर्ष पर या उसके बाद व्यवहार में आ सकती हैं।

— : दर्शाता है कि संबंधित प्रतिभूति व्यापार हेतु उपलब्ध नहीं थी।

.. : दर्शाता है कि संबंधित प्रतिभूति का माह के दौरान लेन-देन शून्य/नगण्य था।